



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1560]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 18, 2007/अग्रहायण 27, 1929

No. 1560]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 18, 2007/AGRAHAYANA 27, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2007

का.आ. 2148(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपर जिला अधिकारी, भूमि अर्जन, गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश राज्य में नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 91 के 23.600 कि.मी. से 26.000 कि.मी. तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 91 के 23.600 कि.मी. से 26.000 कि.मी. तक की बाबत भूमि अर्जन

क्र. सं.	जिला	तालुक	पुलिस थाना	गाँव का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	गाजियाबाद	गाजियाबाद	कवि नगर विजय नगर	(1) शाहपुर बमैटा (2) डूँडाहेड़ा

[ फा. सं. भाराप्र/बीओटी/11013/4/2007/यूपी ]

प्रभाकर, उप सचिव

**MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th December, 2007

**S.O. 2148(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorises the Additional District Magistrate, Land Acquisition, Ghaziabad, as the competent authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from km. 23.600 to km 26.000 of National Highway No. 91 (Ghaziabad-Aligarh Section) for building (widening / four- laning, etc.), maintenance, management and operation of the said National Highway in the State of Uttar Pradesh, as specified in the Schedule given below.

**SCHEDULE**

Acquisition of land in respect of National Highway No. 91 in the State of Uttar Pradesh on the stretch from km 23.600 to km 26.000

Serial number	District	Taluk	Police station	Name of village
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ghaziabad	Ghaziabad	Kavi nagar	(1) Shahpur bameta
			Vijay nagar	(2) Doondaheda

[ F. No. NHAI/BOT/11013/4/2007/UP]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2007

**का.आ. 2149(अ).**— केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 क: खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपर जिला अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, गौतम बुद्ध नगर को उत्तर प्रदेश राज्य में नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-91 के 26.000 कि. मी. से 48.000 कि. मी. (गाजियाबाद- अलीगढ़ सेक्शन) तक के भूखण्ड के उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण ( चौड़ा करने /चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है ।

## अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-91 के 26.000 कि. मी. से 48.000 कि. मी. तक की बाबत भूमि का अर्जन

क्रम संख्या	जिला	तालुका	पुसिस घाना	गाँव का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	गौतम बुद्ध नगर	दादरी	विजय नगर	(1) घियाणा बुर्जुग
			दादरी	(2) छपरीका
				(3) बिसनूली
				(4) अक्केजा
				(5) इबादुल्लापुर उर्फ बादकपुर
				(6) सादोपुर
				(7) धूम भानिकपुर
			जारचा	(8) बिसाहडा
			दादरी	(9) बठपुरा
				(10) दादरी
			जारचा	(11) नगला किरानी
			दादरी	(12) महीऊझीनपुर
				(13) चिटहरा
				(14) शाहपुर खुर्द
				(15) बैरगपुर उर्फ नई बस्ती
				(16) बील अकबरपुर
			जारचा	(17) आनंदपुर
			दादरी	(18) कोट
				(19) कुहारकी
			जारचा	(20) नगला चमरु

[फा. सं. भाराप्र/बीओटी/11013/4/2007/यूपी]

प्रभाकर, उप सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2007

**S.O. 2149(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorises the Additional District Magistrate, Land Acquisition, Gautam Budh Nagar, as the competent authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from km. 26.000 to km 48.000 of National Highway No. 91 (Ghaziabad-Aligarh Section) for building (widening / four- laning, etc.), maintenance, management and operation of the said National Highway in the State of Uttar Pradesh, as specified in the Schedule given below.

**SCHEDULE**

Acquisition of land in respect of National Highway No. 91 in the State of Uttar Pradesh  
on the stretch from km. 26.000 to km 48.000

Serial number.	District	Taluk	Police station	Name of village
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Gautam Budh Nagar	Dadri	Vijay Nagar	(1) Chipiyana Bujurg
			Dadri	(2) Chapraula
				(3) Bisnooli
				(4) Acheja
				(5) Ibadullapur urf Badalpur
				(6) Sadopur
				(7) Dhoom Manikpur
			Jarcha	(8) Bisahada
			Dadri	(9) Badpura
				(10) Dadri
			Jarcha	(11) Nagla Kirani
			Dadri	(12) Mahiuddinpur
				(13) Chitera
				(14) Shahpur Khurd
				(15) Bairagpur urf Nai Basti
				(16) Beel Akbarpur
			Jarcha	(17) Anandpur
			Dadri	(18) Kote
				(19) Luharli
			Jarcha	(20) Nagla Chamru

[ F. No. NHAI/BOT/11013/4/2007/UP]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2007

**का.आ. 2150(अ).**—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 क: खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपर जिला अधिकारी, प्रशासन, बुलन्दशहर को उत्तर प्रदेश राज्य में नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-91 के 48.000 कि. मी. से 107.100 कि. मी. (गाजियाबाद- अलीगढ़ सेक्शन) तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण ( चौड़ा करने /चार लेन का बनानेआदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है ।

## अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-91 के 48.000 कि. मी. से 107.100 कि. मी. तक की बाबत भूमि का अर्जन

क्रम संख्या (1)	जिला (2)	तालुक (3)	पुलिस थाना (4)	गाँव का नाम (5)
1.	बुलन्दशहर	1. सिकन्दराबाद	सिकन्दराबाद	(1) तिळबेगमपुर (2) गोपालपुर (3) जोखाबाद (4) राजारामपुर (5) सावली (6) सिकन्दराबाद (7) जुनेदपुर (8) ढाळपुर (9) बिहसूरी (10) पिछनवाली (11) चन्देरू
		2. बुलन्दशहर	बुलन्दशहर देहात	(1) दरियापुर (2) अढोली (3) अकबरपुर (4) मरगूबपुर (5) दोस्तपुर (6) चौदपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(7) गगेरबा
				(8) सुनेहरा
				(9) मचकौली
				(10) हरतौली
				(11) जाळखेडा
				(12) खेतळपुर भसौली
				(13) धमरावली
			खुर्जा देहात	(14) मामनखुर्द
		3. खुर्जा		(1) खळसिया चूहरपुर
				(2) बरतौली
				(3) धरपा चूहरपुर
				(4) किररा
				(5) हजरतपुर
				(6) ढखावटी भिरजापुर
				(7) बाजिदपुर
			खुर्जा	(8) अगवाळ
				(9) चौंदपुर खुर्द
				(10) ढाळपुर धिटीळा
				(11) बरौली
				(12) तालिबपुर
				(13) बगराई
				(14) खुर्जा
				(15) झमका
				(16) उस्मापुर
				(17) मीरपुर
			अरनियाँ	(18) रौहदा
				(19) ईशनपुर
				(20) दशहरा खैरली
				(21) रुकनपुर
				(22) अरनिया खुर्द
				(23) मुनि
				(24) खुरियावली
				(25) क्यौली खुर्द
				(26) अहमदपुर उर्फ हळपुरा
				(27) रनियावली

[फा. सं. भारराप्रा/बीओटी/11013/4/2007/यूपी]

प्रभाकर, उप सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th December, 2007

**S.O. 2150(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorises the Additional District Magistrate, Land Acquisition, Bulandsahar, as the competent authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from km. 48.000 to km 107.100 of National Highway No. 91 (Ghaziabad-Aligarh Section) for building (widening / four- laning, etc.), maintenance, management and operation of the said National Highway in the State of Uttar Pradesh, as specified in the Schedule given below.

**SCHEDULE**

Acquisition of land in respect of National Highway No. 91 in the State of Uttar Pradesh on the stretch from km 48.000 to km 107.100

Serial number.	District	Taluk	Police station	Name of village
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bulandsahar	1.Sikandarabaad	Sikandarabad	(1) Til begumpur
				(2) Gopalpur
				(3) Jokhabad
				(4) Rajarampur
				(5) Sawali
				(6) Sikandarabad
				(7) Junaidpur
				(8) Laalpur
				(9) Bilsuri
				(10) Pilkhanwali
				(11) Chanderu

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		2. Bulandsahar	Bulandsahar Dehat	(1) Dariyapur
				(2) Adhauli
				(3) Akbarpur
				(4) Margoobpur
				(5) Dostpur
				(6) Chandpur
				(7) Gageraba
				(8) Sunhera
				(9) Machkauli
				(10) Hartauli
				(11) Jaal khera
				(12) Khaitalpur bhsauli
				(13) Dhamaravali
			Khurja Dehat	(14) Mamankhurd
		3. Khurja		(1) Khalsiya chuharpur
				(2) Bartoli
				(3) Dharpa chuharpur
				(4) Kirra
				(5) Hazaratpur
				(6) Chandpur khurd
				(7) Lalpur chitaula
				(8) Lakhawati Mirzapur
				(9) Bagrai
				(10) Bajeedpur
			Kotwali Khurja city	(11) Agwal
				(12) Khurja
				(13) Ushmapur
				(14) Mirpur
			Khurja City	(15) Barauli
				(16) Talibpur



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(17) Jhamka
			Arnia	(18) Rohinda
				(19) Ishanpur
				(20) Dushera kharali
				(21) Rukanpur
				(22) Arnia Khurd
				(23) Muni
				(24) Khuriyawali
				(25) Kyoli khurd
				(26) Ahmadpur urf Halpura
				(27) Raniyawali

[ F. No. NHA/BOT/11013/4/2007/UP]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2007

**का.आ. 2151(अ).—** केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 क: खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपर जिला अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, अलीगढ़ को उत्तर प्रदेश राज्य में नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-91 के 107.100 कि. मी. से 140.200 कि. मी. (गाजियाबाद- अलीगढ़ सेक्शन) तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण ( चौड़ा करने/घार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है ।

**अनुसूची**

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-91 के 107.100 कि. मी. से 140.200 कि. मी. तक की बाबत भूमि का अर्जन

क्रम संख्या	जिल्हा	तालुक	पुलिस थाना	गाँव का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अलीगढ़	1. गभाना	चन्दीस	(1) पहावटी
			गभाना	(2) मर्दौला
				(3) दौरऊचाँदपुर
				(4) सोमना
				(5) पनिहावर
				(6) नगला नाथा
				(7) श्यामपुर
				(8) गभाना
				(9) कन्होई
				(10) ओगर नागला राजू
				(11) चुहरपुर
				(12) पैराई
				(13) पलासल्लू

50134/07-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			लोधा	(14) कौरह रूस्तमपुर
		2. कोल	लोधा	(1) भरतारी
				(2) भाकरीखास
				(3) महारावल की नगलिया
			गभाना	(4) खेडा खुशखापर
			लोधा	(5) सिकन्दरपुर मुख्यावली
				(6) लेखराजपुर
			बन्नादेवी	(7) भीमपुर
			लोधा	(8) जलनपुर चिकावटी
				(9) रसुलपुर
				(10) हरदासपुर
				(11) बाजीदपुर नाहा
				(12) अलहादपुर निहारी
				(13) सलेमपुर माफी
				(14) इम्राहिमपुर
			दिल्लीगेट	(15) शाहपुर कुतब
			लोधा	(16) अमरपुर कौन्डला
			दिल्लीगेट	(17) तलाशपुर खुर्द
			अलीगढ सिटी	(18) मुल्लापारा भुजपुरा
			मन्डराक	(19) खेरियाखाजाबुडडा
				(20) दौलताबाद
				(21) हजीपुर चौहटा
				(22) रूस्तमपुर सखत धा
				(23) पड़ियावाली
			क्वासी	(24) नगला पान खानी
			गान्धीपार्क	(25) भदेशी माफी
			क्वासी	(26) रहमतपुर गरमाई
			गान्धीपार्क	(27) अलीनगर
				(28) सिन्धीली
				(29) जौरावरनगर
				(30) निजबतपुर बोरना
			क्वासी	(31) बौनर
			गान्धीपार्क	(32) किशनगढ़ी

[फा. सं. भाराप्र/बीओटी/11013/4/2007/यूपी]

प्रभाकर, उप सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th December, 2007

**S.O. 2151(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorises the Additional District Magistrate, Land Acquisition, Aligarh, as the competent authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km 107.100 to Km 140.200 of National Highway No. 91 (Ghaziabad-Aligarh Section) for building (widening / four- laning, etc.), maintenance, management and operation of the said National Highway in the State of Uttar Pradesh, as specified in the Schedule given below.

**SCHEDULE**

Acquisition of land in respect of National Highway No. 91 in the State of Uttar Pradesh on the stretch from Km 107.100 to Km 140.200

Serial number.	District	Taluk	Police station	Name of village
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aligarh	1. Gabhana	Chandaus	(1) Pahawati
			Gabhana	(2) Madhaura
				(3) Darau Chandpur
				(4) Somna
				(5) Panihawar
				(6) Nagla Natha
				(7) Shyampur
				(8) Gabhana
				(9) Kanhoi
				(10) Ogar Nagla raju
				(11) Chuaharpur
				(12) Parai
				(13) Pala Sallu
			Lodha	(14) Kaurah Rustampur
		2. Kol		(1) Bhartari
				(2) Bhakari Khas
				(3) Mehrawal ki Nagilya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Gabhana	(4) Khera Khushkhapar
			Banna Devi	(5) Bhikampur
			Lodha	(6) Sikandarpur Mukhyawali
				(7) Lekhrajpur
				(8) Jatanpur Chikawati
				(9) Rasoolpur
				(10) Hardaspur
				(11) Bajidpur Naha
				(12) Alhadpur Nihari
				(13) Salempur mafi
				(14) Ibrahimpur
				(15) Amarpur Kondla
			Delhi Gate	(16) Shahpur Kutub
				(17) Talashpur Khurd
			Aligarh City	(18) Mullapara Bhujpura
			Mandrak	(19) Kheriya Khwaja Budha
				(20) Daultabad
				(21) Hajipur Chauhata
				(22) Rustampur Sakhat tha
				(23) Padiyawali
			Quasi	(24) Nagla Pan Khani
				(25) Rehmatpur Garhmai
				(26) Bauner
			Gandhi Park	(27) Bhadeshi Mafi
				(28) Ali Nagar
				(29) Sindhauli
				(30) Zorawarnagar
				(31) Nijbatpur Borna
				(32) Kishangarhi

[ F. No. NHA/BOT/11013/4/2007/UP]

PRABHAKAR, Dy. Secy.